

President calls for shifting from fossil fuels to renewable energy

Murmu also noted that the IITs had proved to the world the capability of India in the domains of technology

STATESMAN NEWS SERVICE NEW DELHI, 3 SEPTEMBER

President Droupadi Murmu today emphasised the need to shift from fossil fuels to renewable energy, drawing attention to the fact that India's energy requirement for economic growth was very high as a developing country with a high population base.



world India's brainpower, Murmu said. She said some of those who studied in IIT Delhi and in other IITs were now at the forefront of the digital revolution sweeping the world.

Speaking at the closing ceremony of the Diamond Jubilee celebrations of The Indian Institute of Technology, Delhi, the president said the IITs had proved to the world the capability of India

in the domains of education and technology.

The IITs have contributed immensely to India's improved standing on the global stage. Faculty and alumni of IITs have shown the

has been extra sensitive to its responsibility towards society. She said that the latest example of its social concern was seen during the initial phase of the Covid pandemic.

Read here- https://www.thestatesman.com/india/iits-pride-nation-president-murmu-1503107548.html

At IIT-D's Diamond Jubilee event, President hails its Covid response

EXPRESS NEWS SERVICE NEW DELHI, SEPTEMBER 3

SPEAKING AT the closing ceremony of IIT-Delhi's Diamond Jubilee Celebrations Saturday, President Droupadi Murmu said the institute's research and development projects in the early stages of the pandemic is a model of how engineering and technology institutions can play a role in a public health crisis.



President Droupadi Murmu.

"Such institutions often run the risk of existing in isolation, as ivory towers. That is why it is all the more heartening to note that IIT-Delhi has always seen itself as part of the larger community and it has been extra sensitive to its responsibility towards society."

She also encouraged students and researchers to look for solutions to environmental chal-

'Story of IITs is the story of free India'

President Murmu lauds the institutions for shaping the nation's global standing

SPECIAL CORRESPONDENT NEW DELHI

President Droupadi Murmu on Saturday hailed the IITs for their contribution to the story of India and for improving the country's standing on the global stage.

"The story of the IITs is the story of independent India," the President said at the closing ceremony of diamond jubilee celebrations of Indian Institute of Technology (IIT)-Delhi.

"Your faculty and alumni have shown the world our brainpower. Some of those who studied here and in other IITs are now at the forefront of the digital revolution sweeping the world. Moreov-



A milestone: President Droupadi Murmu at the valedictory of the diamond jubilee celebrations of the IIT-Delhi.

er, the impact of IITs has gone beyond science and technology. IITians are leaders in every walk of life - in education, industry, entrepreneurship, civil society,

activism, journalism, literature and politics," said Ms. Murmu. The President pointed out that the premier institutions derived their strength partly

from the fact that they had expanded beyond their traditional strengths in science and engineering by offering programmes in humanities, social sciences, design, management and public policy.

"This multi-disciplinary approach is well aligned with the new National Education Policy (NEP)," Ms. Murmu added.

Looking towards the next 25 years, it is the threats of climate change that posed a serious challenge, she pointed out and urged IITs to explore technological solutions to environmental challenges and help the country achieve the Sustainable Development Goals.

Read here- https://www.thehindu.com/news/national/president-droupadi-murmu-addresses-diamond-jubilee-celebrations-of-iit-delhi/article65844933.eco

अमर उजाला दिल्ली amarujala.com नई दिल्ली | रविवार, 4 सितंबर

शिक्षण संस्थानों को भविष्य के लिए तैयार करना जरूरी : मुर्मु

आईआईटी दिल्ली के डायमंड जुबली समारोह कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रपति

अमर उजाला यूट्यूब



आईआईटी दिल्ली के समारोह में मौजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मendra प्रधान।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) राष्ट्र का गौरव हैं। आईआईटी की फेकल्टी और पूर्व छात्रों ने दुनिया को अपनी क्रांतिकारी दिखाने में योगदान दिया है। ये संविधान की आईआईटी दिल्ली के गैलरीज कार्यक्रम का संवर्धन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईआईटी ने दुनिया को प्रेरित किया है।

लोगों की दिक्कतों के समाधान पर काम करें शिक्षण संस्थान : प्रधान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मendra प्रधान ने आईआईटी दिल्ली के डायमंड जुबली कार्यक्रम में कहा कि आईआईटी रिसर्च और प्रणालियां बनाने का रोल हैं। यह एक आम लोगों को दिक्कतों के समाधान पर काम करे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आईआईटी के पास एक ऐसा मॉडल है जो कि एक सार्वजनिक प्रणाली को बनाने का है।

जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती

राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि एक उच्च जनसंख्या आधारित विकासशील देश के रूप में, अधिक विकास के लिए हमें ऊर्जा को बेहतर बनाने है।

NEW DELHI, September 3

'Education institutes should be future-ready'

PRESIDENT DROUPADI MURMU on Saturday stressed on the need to make educational institutions future ready, asserting that if the country takes steps to protect itself from vagaries of the future, it can reap rich demographic dividends.

"India has great talent pool which is yet to be fully tapped. We need to make our institutes adaptable to the future. This will require a new teaching-learning matrix, pedagogy and content which are future-oriented. I am confident that with our famed IITs, we will be able to nurture the younger generation with necessary knowledge base and right skills to face the challenge," she said.

Calling IITs the country's pride, Murmu said, "Their story is the story of Independent India." "IITs proved to the world the capability of India in the domains of education and technology. In more than one way, the story of the IITs is the story of Independent India. The IITs have contributed immensely to India's improved standing on the global stage today. Faculty and alumni of IITs have shown the world our brainpower," she said.

4 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 4 सितंबर, 2022

शिक्षण संस्थान भविष्य के अनुकूल बनाने होंगे : मुर्मु

आईआईटी के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में कहा कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं



हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते राष्ट्रपति।

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में मुर्मु ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे प्रसिद्ध आईआईटी हमें चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक ज्ञान आधार और सही कौशल के साथ युवा पीढ़ी का पोषण करने में सक्षम होंगे।



हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते राष्ट्रपति।

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में मुर्मु ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे प्रसिद्ध आईआईटी हमें चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक ज्ञान आधार और सही कौशल के साथ युवा पीढ़ी का पोषण करने में सक्षम होंगे।

जन्मसंख्या आधार वाले विकासशील देश के रूप में, अधिक विकास के लिए हमारे जनों की आवश्यकता बहुत अधिक है। ऐसे में हमें जैविक ईंधन से अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ने की जरूरत है। आने वाले वर्षों की पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए दुनिया तकनीकी समाधान ढूंढ रही है। भारत के युवा इंजीनियर और विद्वान इसमें सक्रियता दिखा सकते हैं।

आईआईटी दिल्ली एक संस्थान मात्र नहीं, बल्कि 21वीं सदी का वैश्विक नागरिक बनाने का शक्ति केंद्र है। आईआईटी दिल्ली भारतीय संस्कृति का नालेज फॉरन बनाने चाहता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पांच प्रश्न के संदर्भ में भी टिप्पणी दी।

आईआईटी दिल्ली एक संस्थान मात्र नहीं, बल्कि 21वीं सदी का वैश्विक नागरिक बनाने का शक्ति केंद्र है। आईआईटी दिल्ली भारतीय संस्कृति का नालेज फॉरन बनाने चाहता है।

Read here- https://www.amarujala.com/education/india-has-great-talent-pool-which-is-yet-to-be-fully-tapped-said-president-droupadi-murmu-at-iit-delhi-event

Read here- https://www.financialexpress.com/education-2/iits-have-been-the-pride-of-our-nation-president-droupadi-murmu/2654280/

Read here- https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-iit-delhi-60-years-of-establishment-celebrating-diamond-jubilee-in-presence-of-president-drapadi-murmu-and-dharmendra-pradhan-23038837.html

{ IIT-DELHI DIAMOND JUBILEE CELEBRATIONS }

Educational institutions must be future-ready: Prez Murmu

HT Correspondent

NEW DELHI: Educational institutions must prepare the young for the future by imparting "necessary knowledge" and the "right skills," President Droupadi Murmu said on Saturday, expressing confidence that this could be achieved with the help of the famed Indian Institutes of Technology (IITs).



President Droupadi Murmu and IIT-D director Rangan Banerjee.

The IITs are the pride of the nation and their story is the story of Independent India. The President said at the closing ceremony of the IIT Delhi's diamond jubilee celebrations on Saturday.

change poses a serious challenge. The President said as a developing country with a high population, our energy requirement for economic growth is very high. "Hence, we need to shift from fossil fuels to renewable energy. India, as you are aware, has taken a praiseworthy lead in the international stage in promoting solar energy," she said.

Noting the contribution of IITs to India's improved standing on the global stage, the President said: "Your faculty and alumni have shown the world our brain power. Some of those who studied here and in other IITs are now at the forefront of the digital revolution sweeping the world. Moreover, the impact of IITs has gone beyond science and technology. IITians are leaders in every walk of life."

IIT to be Parliament 'knowledge partner'

Fareeha Iftikhar

NEW DELHI: The Indian Institute of Technology in Delhi (IIT-D) wants to be the "knowledge partner" of Parliament, the premier institution has told the Union education ministry, which has welcomed the proposal.

"A few days ago, the IIT-D director asked us how the institute can work closely with the Parliament of India. I asked them to write a letter and they did. I have forwarded that letter to the speaker," Union education minister Dharmendra Pradhan said at IIT-D's diamond jubilee celebration on Saturday.

Explaining the idea behind the proposal, IIT-D director Rangan Banerjee said the institute wants to provide inputs to parliamentarians across party lines on several pressing issues, including climate

NEW DELHI, SEPTEMBER 3

Need to make edu institutes future-ready, says President

TRIBUNE NEWS SERVICE

President Droupadi Murmu today called the Indian Institutes of Technology (IIT) pride of the nation as they had proved to the world the capability of India in the domains of education and technology.

"In more than one way, the story of the IITs is the story of an independent India," said Murmu while addressing the closing ceremony of the diamond jubilee celebrations of IIT-Delhi. Stressing the need for making educational institutions future ready, she said, "If the country takes steps to protect itself from vagaries of the future, it can reap rich demographic dividends."



A portrait gifted to President Droupadi Murmu at IIT-Delhi.

"Some of those who studied in IIT-Delhi and in other IITs are now at the forefront of the digital revolution sweeping the world. Moreover, the impact of the IITs has gone beyond science and technology. IITians are leaders in every walk of life — education, industry, entrepreneurship, civil society, activism, journalism, literature and politics," she said.

जागरण सिटी दिल्ली

आइआईटी की स्टार्टअप प्रदर्शनी में उपकरण बने आकर्षण का केंद्र

प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने अपने-अपने स्टार्टअप के स्टाल लगाए.

Infographic showing statistics about IIT-Delhi's 60th anniversary and startup exhibition. Includes data points like 1961, 320, 371, 1966, 1975, 588, 1100, 1300, 800.

Read here- https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/need-to-make-our-institutes-adaptable-to-the-future-president-murmu-at-iit-delhi-event-101662290837090.html

Read here- https://www.tribuneindia.com/news/nation/need-to-make-education-institutes-future-ready-says-president-droupadi-murmu-428330

Read here- https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-iit-delhi-startup-21-companies-showed-their-strength-scooty-running-from-55-km-to-125-km-will-come-in-the-market-jagran-special-23041570.html